

## Registration for fresh admissions in Class XI

Registration forms for fresh admissions in Class XI Science and XI Commerce (non-KV students) will be downloaded from the website as per the following schedule:

Process of Registration (online): 27.07.2020 onwards.

Last date of submission of duly filled in downloaded Registration forms:

03.08.2020 up to 4 pm

Display of Admission List: 05. 08.2020 AN

Admission will be done as per KVS admission guidelines in the sequence of categories of priority.

### **Scanned copy of Documents to be submitted with the registration form:**

1. Self - attested copy of Mark sheet.
2. Recent Service certificate from the employer in the form itself with office seal clearly mentioning the name, designation and contact no.
3. ST/SC certificate (if applicable)
4. Residence proof (Driving License, Electricity bill, Identity Card, etc.)

**Note:** Admission to non-KV students will be given only after admitting all eligible students of KV Namrup and nearby KVs.

The Complete application with all above documents must be submitted through e-mail only at [kvnarnrup@gmail.com](mailto:kvnarnrup@gmail.com)

Principal



केंद्रीय विद्यालय नामरूप  
Kendriya Vidyalaya NAMRUP



पंजीकरण संख्या/ Regd. No.

सत्र/Session - 2020-21

पंजीकरण के लिए कक्षा /Registration for class.....

बच्चे का फोटो  
(पासपोर्ट साइज का)  
Photograph of the  
child  
(Passport size)

1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)  
Name of child in full (in Capital letters) .....

लिंग/Sex - पुरुष/Male  स्त्री/Female  तृतीय लिंग/Third Gender

2. जन्म-तिथि (अंकों में)/ Date of Birth (in figure) दिन/Day मास/Month वर्ष/Year

शब्दों में/In words.....

31.03.20 तक आयु/ Age as on 31.03.20 वर्ष/Year मास/Month दिन/Day

3. बच्चे का रक्त समूह (Rh फैक्टर सहित)  
Blood Group of the child (with Rh factor)

4. बच्चे की संबन्धित श्रेणी/The category to which child belong:

General	SC	ST	OBC	EWS	BPL	Diff. Abled	S.G. Child
सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओ.बी.सी.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	बी.पी.एल.	अन्य रूप से सक्षम	इकलीती कन्या
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

यदि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी.(अन्य पिछड़े वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर/ बी.पी.एल./ विकलांग/इकलीती कन्या श्रेणी से सम्बंधित है तो कृपया संबन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।  
If the child belongs to SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G. Category, then, please attach relevant certificate.

Mobile No.:

Email ID of Student

(AD IN CAPITAL LETTERS)

5. माता-पिता का विवरण/Details of Mother/ Father -

क्र. स.		माता/ Mother	पिता/Father
(i)	नाम (स्पष्ट शब्दों में)/Name (in Capital letters)		
(ii)	राष्ट्रियता/Nationality		
(iii)	व्यवसाय/Occupation		
(iv)	कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष Name of Office and full address and Telephone number.		
(v)	पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित) Full residential address and Tel. no. (with proof)		
(vi)	विद्यालय से दूरी (कि.मी.में)/ Distance from KV (in km) *		
(vii)	मूल वेतन/Basic Pay		
(viii)	स्थानांतरणों की संख्या No. of Transfers **		
(ix)	माता-पिता की श्रेणी Category of the Parent #		
(x)	कर्मचारी कोड (यदि है तो) Employee Code (if any)		

\* विद्यालय से आवास की दूरी दूरी के लिए माता-पिता/अभिभावक का सपथ-पत्र मान्य है। आवास प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है।  
Distance of Residence from Vidyalaya. Undertaking from parents is acceptable for distance. Proof of Residence is compulsory.

\*\* 31.03.20 तक पिछले सात वर्ष में स्थानांतरणों की संख्या/No. of transfers during last 7 years as on 31.3.20

# 1. केन्द्रीय सरकार/Central Govt 2. केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त संस्थान/Autonomous bodies of Central Govt. 3. राज्य सरकार/ State Govt. 4. राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थान/Autonomous bodies of State Govt. 5. अन्य/Others

I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर  
Signature of Mother/Father/Guardian

पूरा नाम/Full Name.....

दिनांक/ Date: .....

मान्यता/Acknowledgement

सत्र/Session -

क्र. स./S. No.

पंजीकरण संख्या/Registration No. ....

श्री/श्रीमती .....से उनके पुत्र/पुत्री

का कक्षा .....में प्रवेश हेतु पंजीकरण

के लिए आवेदन प्राप्त किया।

Received an application from Shri/Smt.....

daughter..... for registration of her/ his son/ for admission to class.....

तिथि/ Date.....

प्राचार्य/ Principal

केन्द्रीय विद्यालय (मोहर) Kendriya Vidyalaya (Stamp)

**STUDENT DATA CUM OPTION FORM FOR 2020-21**

**FOR NON KV STUDENTS**

SN.NO		
1	ADMISSION NUMBER/UID NUMBER	
2	NAME OF STUDENT	
3	D.O.B	
4	CASTE(GEN/SC/ST/OBC)	
5	FATHER'S NAME	
6	OFFICE NAME AND ADDRESS	
7	CATOGORY OF PARENT(I/II/III/IV/V/VI )	
8	MOTHER'S NAME	
9	OFFICE NAME AND ADDRESS	
10	MOBILE NUMBER OF PARNENTS	
11	ANNUAL INCOME OF PARENT	FATHER MOTHER
12	RESIDENTIAL ADDRESS	
13	Total marks obtained in five main subjects: Eng,Lang 2,Maths,Science,So.Sc & %	
14.	Percentage	
15.	OPTION	TICK ANY ONE
SCIENCE	ENG,MATHS/HIN,PHY,CHEM,COMP.SC/BIO	
COMMERCE	ENG, ,BST, ACC ,ECO, <b>MATHS/HIND/IP</b>	
16.	UNDERTAKING BY PARENT	I hereby undertake that the final option of stream will be as per KVS guidelines for admission2020 and I shall abide by the rules and regulations of the school/KVS.
17.	SIGNATURE OF PARENT	FATHER  MOTHER
18.	VERIFIED BY(TEACHER)	SIGNATURE  NAME OF TEACHER
19.	SIGNATURE OF PRINCIPAL	